



Date- 12th November 2022

The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001
Scrip Code: 540203

The National Stock Exchange India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra(E), Mumbai-400051
NSE Symbol: SFL

SUB: Submission of Newspaper advertisement w.r.t Notice of Postal Ballot/ E-voting

Dear Sir/Madam,

The notice is published on 12th November 2022 in English and Hindi in the below Newspapers:

1. Financial Express- English and
2. Jansatta — Hindi - Delhi edition

w.r.t. completion of dispatch of notice of Postal ballot/e-voting electronically, to the eligible members of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

For Sheela Foam Limited

Company Secretary & Compliance Officer

SHEELA FOAM LTD.

#14, Sleepwell Tower , Sector 135, Noida- 201301

Ph: Int-91(0)-120-4162200 • Fax: Int-91-(0)-120-4162282, 4162283 • Email: contactus@sheelafoam.com
Regd. Office: 604 Ashadeep, 9 Hailey Road, New Delhi-110001, India • Ph: Int-91(0)-11-22026875-76
Toll Free: 1800 103 6664 • www.sleepwellproducts.com • www.sheelafoam.com
CIN-L74899DL1971PLC005679



CIN: L44500M-0212PL-C234318

Regd. Office: 605-607, Shikant Chambers, Phase: 6th Floor, Adjacent to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Mumbai - 400 071.

Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2022

Table with columns for Standalone and Consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

Note: 1. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved, taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 10, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors of CAPACITE INFRASTRUCTURES LIMITED

PATBAK BUSINESS LIMITED

CIN: L74999DL1984PL018747

Regd. Office: Shop No. 325, Plot No. 3, Aganwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Ph No: 011-27480000

Email: corporate@patbak.com and on the website of the Company: www.patbak.com

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2022

Table with columns for Standalone financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

SHEELA FOAM LIMITED

CIN: L74999DL1971PL0050793

Registered Office: 04, Ashadnagar, 5th Floor, New Delhi-110001

Email: investor@sheelafoam.com and on the website of the Company: www.sheelafoam.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT/VOTING

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Act, read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modifications) or re-enactments thereof, for the time being in force ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), the General Circular No. 14/2020 dated 09th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 28th September, 2020, 20/2021 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 09th December, 2021 and 3/2022 dated 09th May, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (MCA Circulars), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modifications) or re-enactments thereof, for the time being in force, Sheela Foam Limited (the "Company") seeking the approval of the Members to issue the bonus shares through Postal Ballot (only by e-voting and electronic means) (remote e-voting) as stated in the Postal Ballot Notice ("Notice") dated November 08, 2022. The detailed explanatory Statement setting out the material facts concerning the resolutions form part of the notice.

The Notice will also be available on the website of the Company (https://sheelafoam.com/), on the website of LIPL, the Company's Registrar and Transfer Agent at https://instavote.lintkintime.co.in and on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

- 1. The dispatch of the Notice of the Postal Ballot (E-voting) has been completed on 11th November 2022.
2. As per the MCA Circulars, the Company is sending Postal Ballot Notice (the "notice") only by email to all its members who have registered their email addresses with the Company or depository/depository participants.
3. The cut-off date for the purpose of reckoning the voting rights and sending the notice is Friday, November 04, 2022 (Cut-off Date). The members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
4. The detailed procedure and instruction on the process of e-voting, including the information in which the members who have not yet registered their email addresses can register their email address and/or cast their vote, are specified in the notice.
5. The remote e-voting shall commence on November 13, 2022, at 10:00 AM.
6. The remote e-voting shall end on December 12, 2022, at 05:00 PM.
7. E-voting shall not be allowed beyond December 12, 2022, at 05:00 PM.
8. The results of the Postal Ballot will be announced by Wednesday, December 14, 2022 on website of the Company https://sheelafoam.com/ and, on the website of LIPL, the Company's Registrar and Transfer Agent at https://instavote.lintkintime.co.in and on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).
9. In case any queries related to e-voting members may contact Link Intime INSTAVOTE helplinek by sending a request at notices@linkintime.co.in or contact Mr.Ranjiv Ranjan on: Tel: 022-49186030

For Sheela Foam Limited Ms. Iqbal Ahmad

Date: 11th November, 2022 Company secretary

Place: Noida and Compliance Officer



Regd. Office Vellayambalam, Thiruvananthapuram - 695033, Kerala

Tel: +91-471-8737500, Website: www.kfc.org, Email: accounts@kfc.org

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended September 30, 2022 (Amount in lakh)

Table with columns for Quarter ended and Half year ended financial results for the quarter ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

Note: 1. Previous figures are regrouped and rearranged wherever necessary to conform to current year's requirement.
2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the aforementioned results is available on the corporation's website: www.kfc.org and on the website www.sebiindia.com

Place: Thiruvananthapuram, On: 10.11.2022 Sd/- Sanjay Khalil IAS, Chairman & Managing Director, KFC

RELIGARE FINVEST LIMITED

CIN: U74999DL1999PL064132

Regd. Office: 1407, 14th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019, Tel No: 011-40021400

Corporate Office: Max House, 7th Floor, Block A, Dr. Jha Marg, Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate, New Delhi - 110020, Tel No. - 011 - 61405300

Statement of Standalone Unaudited Financial Results For The Quarter Ended September 30, 2022 (In INR Lacs)

Table with columns for Quarter Ended and Year Ended financial results for the quarter ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly standalone financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange (www.sebiindia.com) and the Company (www.religareinvest.com).

2. For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (SEBI) and can be accessed on the URL: www.sebiindia.com.

3. Pursuant to Clause 52 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, a limited review of Formulas for Debt Equity Ratio is Total Debt/Total Shareholders' Equity as at September 30, 2022, statement of standalone assets and liabilities as at September 30, 2022 and statement of standalone cash flows for half year ended September 30, 2022 have been carried out by the Statutory Auditors. The same have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors (the Board) at its meetings held on November 10, 2022.

4. Asset & Security Cover: Religare Finvest Limited (RFL) is facing significant asset liability mismatches as a result of ignoring and misappropriation of funds by the erstwhile promoters of Religare Enterprises Limited (REL), Parent Company of RFL, and its associates. Consequently, the Company is facing significant asset liability mismatches (ALM). As a result, the Company has been unable to service its obligations in respect of payments to lenders and is declared non-performing by its lenders. The defaults in payment of dues towards principal and interest towards listed non-converible debentures have been appropriately disclosed by the Company to regulatory authority and all stakeholders during the respective period. Other than those defaults which have been settled in earlier payments and defaults which have been made subsequent to September 10, 2022, as at September 30, 2022, the Company is carrying an interest default of Rs. 337.00 lacs on NCD series 35 and 36. The Company is not required to determine the Asset & Security Cover in respect of the NCDs as required under clause 54(2)(3) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, as all the outstanding NCDs are unsecured.

The Company has been put under a Corrective Action Plan (CAP) by RBI vide its letter dated January 18, 2016 which, inter alia, prohibits RFL from expansion of credit facilities to other than investments in Government Securities and advises RFL not to pay dividend. The Company has proposed to remedy this along with its parent Company REL, continuing as its promoter / investor to its lenders (subject to all requisite approvals and compliances with all applicable norms) regulations. The Company received a letter dated June 03, 2021 from State Bank of India (SBI) stating that the proposal is under consideration on merit with REL as a shareholder and will be considered if it is in compliance of RBI circular dated June 07, 2019 subject to necessary internal approvals by all Consortium Lenders. However, RBI vide letter dated February 11, 2022 advised the company that the restructuring of the Company cannot be implemented with REL continuing as its promoter since the Company has been declared as "Fraud" originating by lenders. The Company filed a writ petition before the Delhi High Court seeking stay of operation of the aforesaid order besides other reliefs. Same was stayed by the Hon'ble Delhi High Court. Interim hearings were conducted on the subject matter and the stay order was consequently extended by the Hon'ble Court. The matter is now listed on February 08, 2023. The matter is sub-judice.

Post the letter dated February 11, 2022 on the RFL RBI has proposed One Time Settlement (OTS) with its lenders (through lead banker i.e. SBI). Various joint lenders' meetings and meetings of core committees have been held for discussions regarding the OTS proposal. The Company has submitted the final OTS proposal to lenders on July 07, 2022 and is pursuing with all lenders for approval for timely completion. The Company is also taking the necessary corrective measures as advised by RBI and alongwith implementation of the OTS proposal, will seek removal of CAP in due course. Accordingly, the financial results have been prepared on Going Concern basis.

5. Earnings Per Share for the quarter ended have been calculated for the three months and not annualised.
6. Formula for Debt Equity Ratio is Total Debt/Total Shareholders' Equity as at September 30, 2022.
7. There is no significant change in accounting policy, hence, there is no impact on profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items) during the quarter and half year ended September 30, 2022.

8. Pursuant to amendment in Schedule III to the Companies Act, 2013 by Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated March 24, 2021, the comparative figures as disclosed in these results have been regrouped/ reclassified, wherever necessary, to make them comparable to current quarter figures.

For Religare Finvest Limited Sd/- Dr. Rashmi Saluja

Place: New Delhi, Date: November 10, 2022 Chairperson & Managing Director

DIN: 01715292

THE COMPANY IS HAVING A VALID CERTIFICATE OF REGISTRATION DATED NOVEMBER 10, 2006 ISSUED BY THE RESERVE BANK OF INDIA (RBI) UNDER SECTION 45 IA OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934. HOWEVER, THE RBI DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY OR GUARANTEE ABOUT THE PRESENT POSITION AS TO THE FINANCIAL SOUNDNESS OF THE COMPANY OR FOR THE CORRECTNESS OF ANY OF THE STATEMENTS OR REPRESENTATIONS MADE OR CONTAINED IN THESE RESULTS BY THE COMPANY AND FOR REPLY OF DEPOSITORS, DISBURSEMENT OF LIABILITY TO THE COMPANY.

www.religareinvest.com SMS 'LOANS' to 575758 customerservice@religare.com 1860-266-4111

INVITATION FOR PARTICIPATION IN SWISS CHALLENGE PROCESS FOR SALE/ACQUISITION OF DEBT EXPOSURE IN RELIANCE CAPITAL LIMITED ("RCL")

RCL Capital Markets & Securities Limited (RCLMS) has been mandated by one of its Clients ("Client") to acquire the debt exposure of the Client on behalf of the Client pursuant to the Swiss Challenge Process for sale/acquisition of debt exposure in RCL under Swiss Challenge Process, in accordance with the regulatory guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time and other applicable laws.

RCLMS, on behalf of its client, invites expressions of interest (EOI) from Asset Revaluation Companies (ARC) to acquire the debt exposure of the Client on behalf of the Client pursuant to the Swiss Challenge Process (RCLMS) for sale/acquisition of debt exposure in RCL under Swiss Challenge Process (RCLMS) based on an existing offer in hand (Anchor Bidder) or "All Cash Offer" basis. Transfer of financial assets shall be on "As is where is" basis. "Whichever there is and without recourse" basis. The Anchor Bidder shall have a preferential right to acquire the total financial assets under the Bid Process as per terms disclosed in the EOI.

The bids shall be unconditional, irrevocable and binding in all respects and for the full debt exposure of the Client. No bids for partial amount shall be entertained.

Interested bidders should submit EOI and execute the Non-Disclosure Agreement (NDA), wherever the said bidders will be allowed access to the bid documents and electronic data used for conducting due diligence. Further details on the Bid Process will be provided in the process note. For more details, please visit the website www.rclcapital.com and click on 'Tender & Bids' icon. The bidding has to be submitted either in hard copy to RCL Capital Markets & Securities Limited, 6th floor, 60B Tower, WTC Complex, Connaught Place, Mumbai - 400095 or by e-mail to project_details@rclcapital.com on or before November 25, 2022 by 12:00 noon.

Interested bidders shall contact their own due diligence, investigation, analysis and independent verification, if their cost and expense, and neither RCLMS nor the Client shall be held responsible for any negligence on the part of the bidders.

In case of any other clarifications/regulatory provision contact:

Table with columns: Contact Persons, Contact Details, E-mail ID. Includes Mr. Ajendra Agarwal, Mr. Rohit Prasad, and project_details@rclcapital.com.

Note: RCLMS/Client reserves the right to cancel or modify the Bid Process and/or disqualify any eligible party, at any stage without assigning any reason and without any liability, and the decision of RCLMS/Client in that regard shall be final and binding on all concerned parties associated in the Bid Process.

For and on behalf of the Board of Directors of RELIANCE CAPITAL LIMITED (RCL)

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR DEBAS ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED OPERATING IN MANUFACTURING INDUSTRY AT HOSSUR, TAMIL NADU (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

- 1. Name of the corporate debtor along with PAN and CIN: Devas Engineering Systems Pvt. Ltd. PAN: AAO205798 CIN: U21597Z010PT001970
2. Address of the registered office: Plot No. 107A, SPICOT Industrial Complex, Phase-1, Hossur, Tamil Nadu - 635 126
3. URL of website: Nil
4. Details of place where majority of fixed assets are located: Hossur, Tamil Nadu
5. Detailed description of main products/services: Consumer Purpose Manufacture of Plant & Machinery for various industries
6. Quantity and value of main products/services sold in last financial year: Sale of Product INR 74,138 Sale of Services INR 20,100
7. Number of employees working: 5
8. Further details regarding the available further details can be obtained from financial statements (with schedules) of Professional through request: Email- ipo@debas@professionalsolutions.com
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: Email- ipo@debas@professionalsolutions.com
10. Last date for receipt of expression of interest: 27th November, 2022
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants: 7th December, 2022
12. Last date for submission of objections to provisional list: 12th December, 2022
13. Process email to submit EOI: ipo@debas@professionalsolutions.com

For Devas Engineering Systems Pvt. Ltd. Sd/- K. Sivakannan

Reg No: BSEIP001014215972019-14214240 Registered Address: Plot No. 107A, T. Jeeva Heron Residences, Anna Nagar East, Selalgram, Chennai, Tamil Nadu - 600 093

Date: 12/11/2022 Place: Chennai

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND SIX MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Rs. In Lakhs

Table with columns for Standalone and Consolidated financial results for the second quarter and six months period ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

The above is an extract of standalone and consolidated financial results for the second quarter and six months period ending September 30, 2022 as filed with the Stock Exchanges under Reg.33 read with Reg.47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchange Web site www.nseindia.com and www.bseindia.com and website of the Company www.salbergroup.net.

November 10, 2022 Sd/- D Rajesh Kumar

Chimbalore-641047 Joint Managing Director & CFO

DIN: 00003131

SELENER ELECTRONICS LIMITED

CIN: L0321071985PL001555, SAMCHITPILAYAM, JOTHUPURAM POST, COMBATORE - 641007.

Email: investor_relations@salbergroup.com and Website: www.salbergroup.net

Table with columns for Standalone and Consolidated financial results for the second quarter and six months period ended September 30, 2022. Includes items like Total Income from Operations, Net Profit, and Earnings Per Share.

The above is an extract of standalone and consolidated financial results for the second quarter and six months period ending September 30, 2022 as filed with the Stock Exchanges under Reg.33 read with Reg.47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchange Web site www.nseindia.com and www.bseindia.com and website of the Company www.salbergroup.net.

November 10, 2022 Sd/- D Rajesh Kumar

Chimbalore-641047 Joint Managing Director & CFO

DIN: 00003131

